

<p>कोल इण्डिया लिमिटेड कंपनी सचिवालय 3 तल्ला, कोर-2, प्रेमिसेस-04-एमआर, प्लॉट-ए एफ-III, एक्शन एरिया-1A, न्यूटाउन, रजरहट, कोलकाता-700156, फोन-0332324555, ईमेल: complianceofficer.cil@coalindia.in वेबसाइट: www.coalindia.in सी आई एन - L23109WB1973GOI028844</p>	 <p>एक महारत्न कंपनी A Maharatna Company</p>	<p>Coal India Limited Company Secretariat Regd. Office: 3rd floor, Core-2 Premises no-04-MAR, Plot no-AF-III, Action Area-1A, Newtown, Rajarhat, Kolkata-700156 PHONE: 033-2324-5555, E-MAIL: complianceofficer.cil@coalindia.in WEBSITE: www.coalindia.in CIN- L23109WB1973GOI028844</p>
--	--	---

Ref.NoCIL:XI(D):4157/4156:2025:

Dated:02.03.2025

To,
Listing Department,
Bombay Stock Exchange Limited,
Scrip Code 533278

To,
Listing Department,
National Stock Exchange of India Limited,
Ref: ISIN – INE522F01014

विषय - :प्रेसविज्ञप्ति।/Sub: - Press Release.

महोदय/महोदया,

सीआईएल आज प्रमुख समाचार पत्रों में एक प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित करने जा रही है (प्रेस विज्ञप्ति की प्रति संलग्न है)। यह सेबी एलओडीआर 2015 के विनियमन 30 के अनुसार आपकी जानकारी और रिकॉर्ड के लिए है।

CIL is going to publish a press release in leading newspapers on date (copy of the press release is enclosed). This is for your information and record as per Regulation 30 of SEBI LoDR' 2015.

Yours faithfully,

(बीपीदुबे/B. P Dubey)
Company Secretary/कंपनीसचिव
& Compliance Officer/कम्प्लायंसऑफिसर

Encl: As above

CIL's relief to NPS customers through financial coverage waiver

Coal India Limited (CIL) in a latest decision has done away with the financial coverage, of ten days of coal value that its non-power sector (NPS) consumers were required to pay CIL for the coal they receive through rail mode.

With the waiver of financial coverage, CIL takes an important step towards reducing transactional complexities and fostering an environment that encourages smooth and efficient business operations.

“The latest decision is one more step in CIL's ongoing efforts to streamline operations under the broader ease of doing business initiative. This also helps reducing financial burden for NRS consumers and improve their cash liquidity” said a CIL executive.

The liquidity availability enables consumers to use the freed-up capital for other operational needs and reduce the working capital pressure.

During the ongoing financial year CIL supplied about 560 million tonnes (MT) of coal to power sector and nearly 134 MTs to NPS consumers till February. The offtake through rail mode accounted for 55% of CIL's total supplies.

This initiative is also part of CIL's broader vision to optimize and modernize coal supply processes for all sectors, aligning with the government's ongoing push to make business operations more transparent, accessible, and cost-effective for industries across India.